



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 20, 1973/आश्विन 28, 1895

No. 358]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 1973/ASVINA 28, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October 1973

S.O. 557(E).—The following order made by the President is published for general information.

### ORDER

Whereas by a proclamation issued on the 13th June, 1973, under clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Uttar Pradesh shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas the Legislature of that State has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services of the financial year 1973-74;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services and also a need has arisen in certain cases for meeting additional expenditure not contemplated in the Annual Financial Statement of that year;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of that State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I, V. V. Giri, President of India, hereby authorise that, pending the sanction by Parliament expenditure of sums not exceeding those specified in column

(1907)

3 of the schedule annexed hereto and amounting in the aggregate to the sum of nineteen crores, seventy five lakhs and fifty-three thousand rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh towards defraying the several charges during the financial year 1973-74 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule.

## THE SCHEDULE

S. No.	Demand No. and services and purposes	Sums not exceeding		
		Expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh	Other Expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh	Total
1	2	3		
		Rs.	Rs.	Rs.
1.	4 Sales Tax	..	19,64,000	19,64,000
2.	5 Other Taxes and Duties	..	93,300	93,300
3.	9 Election	35,000	30,00,000	30,35,000
4.	10 General Administration	..	22,16,100	22,16,100
5.	11 Commissioners and District Administration.	..	1,00,34,800	1,00,34,800
6.	13 Administration of Justice.	..	100	100
7.	14 Jails	..	27,00,000	27,00,000
8.	15 Police	14,700	1,67,86,300	1,68,01,000
9.	16 Food and Civil Supplies and other organisations.	..	60,00,000	60,00,000
10.	17 Scientific Research and Cultural Affairs	..	1,02,000	1,02,000
11.	18 Education	2,400	1,700	4,100
12.	19 Medical	..	33,800	33,800
13.	20 Public Health	..	18,64,800	18,64,800
14.	21 Agricultural Development	15,800	28,04,500	28,20,300
15.	23 Animal Husbandry and Fisheries	3,800	100	3,900
16.	24 Co-operation	..	100	100
17.	25 Industries	..	87,65,900	87,65,900
18.	26 Planning and Co-ordination	..	4,40,000	4,40,000
19.	27 Labour and Employment	..	33,47,800	33,47,800
20.	29 Scheduled and Backward Classes	..	12,38,600	12,38,600
21.	30 Social Welfare	900	..	900
22.	31 Irrigation works met from Revenue.	..	20,000	20,000
23.	33 Public works met from Revenue.	1,69,100	68,000	2,37,100
24.	35 Public Works Establishment	..	100	100
25.	42 Forest and Tourism	..	300	300
26.	43 Miscellaneous Charges	..	1,22,36,200	1,22,36,200
27.	44 Civil Defence and Other Organisations	..	3,17,900	3,17,900
28.	46 Capital Outlay on Industrial and Economic Development	..	7,00,000	7,00,000
29.	48 Capital Outlay on Irrigation Works	..	2,90,00,100	2,90,00,100
30.	49 Capital Outlay on Public Works	..	64,05,100	64,05,100
31.	50 Capital Outlay on Road Transport and other Schemes.	..	50,00,100	50,00,100
32.	53 Loans and Advances bearing interest	..	8,21,69,600	8,21,69,600
	TOTAL	2,41,700	19,73,11,300	19,75,53,000

V. V. GIRI,  
President.

[No. F. 3(62)-B/73].  
(B. MATTHEYAN, Jt. Secy.

## वित्त मंत्रालय

## (प्राथमिक कार्य विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1973

का० आ० 557(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

## आदेश

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा (1) के अधीन 13 जून, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा द्वारा घोषित किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के विधानमंडल के अधिकारों का प्रयोग संसद द्वारा अथवा इस के प्राधिकार के अधीन किया जायेगा;

और चूंकि उस राज्य के विधानमण्डल ने वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए उस राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने की स्वीकृति दी है;

और चूंकि इस प्रकार स्वीकृत रकम कुछ सेवाओं के सम्बन्ध में अपर्याप्त सिद्ध हुई है और अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की भी आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी परिकल्पना उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं की गयी थी;

और चूंकि लोक-सभा का सत्र नहीं चल रहा है और जब तक संसद से ऐसे व्यय की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक राज्य की समेकित निधि से व्यय का प्राधिकार दिया जाना आवश्यक है;

अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 357 की धारा (1) की उपधारा (ग) के अनुसार, मैं बराहगिरि बेंतगिरि, भारत का राष्ट्रपति एतद्वारा, संसद की स्वीकृति प्राप्त होने तक, संलग्न अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1973-74 के वित्तीय वर्ष में विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से उक्त अनुसूची के कालम 3 में निर्दिष्ट रकमों से अनधिक और उन्नीस करोड़ पचहत्तर लाख तिरपन हजार रुपये की कुल रकम को व्यय करने की स्वीकृति देता हूँ।

## अनुसूची

क्रम संख्या	भाग संख्या और सेवाएं तथा प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से			अनधिक
		उत्तर प्रदेश राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय	उत्तर प्रदेश राज्य की समे- कित निधि से पूरा किया जाने वाला अन्य व्यय	जोड़	
1	2	3			
		रुपये	रुपये	रुपये	
1	4 बिजली कर . . .	—	19,64,000	19,64,000	
2	5 अन्य कर और शुल्क . . .	—	93,300	93,300	
3	9 निर्वाचन . . .	35,000	30,00,000	30,35,000	
4	10 सामान्य प्रशासन . . .	—	22,16,100	22,16,100	
5	11 आयुक्त और जिला प्रशासन . . .	—	1,00,34,800	1,00,34,800	
6	13 न्याय प्रशासन . . .	—	100	100	
7	14 कारागार . . .	—	27,00,000	27,00,000	
8	15 पुलिस . . .	14,700	1,67,86,300	1,68,01,000	
9	16 खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन . . .	—	60,00,000	60,00,000	
10	17 वैज्ञानिक शोध और सांस्कृतिक कार्य . . .	—	1,02,000	1,02,000	
11	18 शिक्षा . . .	2,400	1,700	4,100	
12	19 चिकित्सा . . .	—	33,800	33,800	
13	20 सार्वजनिक स्वास्थ्य . . .	—	18,64,800	18,64,800	
14	21 कृषि सम्बन्धी विकास . . .	15,800	28,04,500	28,20,300	
15	23 पशुपालन तथा मत्स्य पालन . . .	3,800	100	3,900	
16	24 सहकारिता . . .	—	100	100	
17	25 उद्योग . . .	—	87,65,900	87,65,900	
18	26 नियोजन और समन्वय . . .	—	4,40,000	4,40,000	

1	2	3	रुपये	रुपये	रुपये
19	27 श्रम और सेवायोजन	—	33,47,800	33,47,800	
20	29 अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियाँ	—	12,38,600	12,38,600	
21	30 समाज कल्याण	900	—	900	
22	31 राजस्व से पूरे किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	—	20,000	20,000	
23	33 सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं	1,69,100	68,000	2,37,100	
24	35 सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	—	100	100	
25	42 धन और पर्यटन	—	300	300	
26	43 प्रकीर्ण व्यय	—	1,22,36,200	1,22,36,200	
27	44 नागरिक सुरक्षा और अन्य संगठन	—	3,17,900	3,17,900	
28	46 औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिचय	—	7,00,000	7,00,000	
29	48 सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिचय	—	2,90,00,000	2,90,00,100	
30	49 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिचय	—	64,05,100	64,05,100	
31	50 सड़क परिवहन और अन्य योजनाओं पर पूंजी परिचय	—	50,00,100	50,00,100	
32	53 ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	—	8,21,69,600	8,21,69,600	
जोड़ :		2,41,700	19,73,11,300	19,75,53,000	

बराहगिरि बैकट गिरि,  
राष्ट्रपति ।

[संख्या एफ० 3(62)—बी/73]

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव ।

